



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2008/माघ 29, 1929

No. 62]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2008/MAGHA 29, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2008

‘7.95 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों’ के भारत सरकार विशेष बांड, 2026’ का निर्गम।

फा. सं. 4(8) डब्ल्यू एण्ड एम/2007.—भारत सरकार, एतद्द्वारा 18 फरवरी, 2008 को कुल 3,610 करोड़ रुपए (नामिनल) की राशि के लिए ‘7.95 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों’ के भारत सरकार विशेष बांड, 2026’ (जिन्हें इसके बाद संक्षिप्त रूप में “विशेष बांड” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

1. **विशेष बांडों में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा** :—यहां अनुबंध-I में, यथा उल्लिखित कंपनियां ही विशेष बांडों में अभिदान की पात्र होंगी और विशेष बांडों में उक्त अभिदान उक्त अनुबंध-I में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की सीमा तक सीमित होगा। उक्त अनुबंध में यथा उल्लिखित कम्पनियों को छोड़कर कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष बांडों में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. **मूल्य**.—विशेष बांड पात्र कंपनियों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए सममूल्य पर जारी किए जाएंगे। विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रुपए (नामिनल) की राशि और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

3. **आवेदन पत्र**.—विशेष बांड पात्र कंपनियों से अनुबंध-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पर जारी किए जाएंगे।

4. **प्रतिभूति का स्वरूप**.—विशेष बांड स्टॉक के रूप में अर्थात् ‘स्टॉक प्रमाण पत्रों’ सहायक सामान्य खाता बही धारक के साथ धारित ग्राहक सहायक सामान्य खाता लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किए जाएंगे।

5. **कार्यकाल का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख**.—विशेष बांडों का कार्यकाल 18 फरवरी, 2008 से शुरू होगा। विशेष बांडों पर ब्याज उनकी अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से उपचित होगा। विशेष बांडों की वापसी अदायगी सममूल्य पर 18 फरवरी, 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

6. **ब्याज**.—विशेष बांडों पर 7.95 प्रतिशत आर्थिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांडों की अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह भुगतान विशेष बांडों की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक आधार पर 18 अगस्त और 18 फरवरी को देय होगा।

विशेष बांडों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. **हस्तांतरणीयता**.—(i) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष बांड का नवीकरण, उप-विभाजन समेकन, रूपान्तरण अथवा अंतरण किया जा सकता है।

(ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष बांडों को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

8. **सांविधिक प्रावधान**.—ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित किए जाएंगे।

9. कर कानून की प्रयोज्यता.—विशेष बांडों में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे।

10. बांडों की पात्रता.—बैंकों द्वारा विशेष बांडों में निवेश को बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश नहीं माना जाएगा। लेकिन, बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के तहत यथा परिभाषित 'अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां' की श्रेणी के तहत निवेश माना जाएगा। इसके अलावा भविष्य निधियों, उपादान निधियों, अधिवर्षिता निधियों आदि द्वारा विशेष बांडों में निवेश को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अधीन पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

11. रिपो के लिए पात्रता.—विशेष बांड हस्तान्तरणीय होंगे और बाजार के तत्काल वायदा लेन-देन (रिपो) के लिए पात्र होंगे। लेकिन, इन बाण्डों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ तत्काल वायदा लेन-देन (रिपो/रिवर्स रिपो) के लिए पात्र आधारीक प्रतिभूति नहीं माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

एल. एम. वास, अपर सचिव

अनुबंध I

पात्र कंपनियों की सूची तथा '7.95 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2026' का आवंटन

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	288.580
2.	गुजरा नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लि.	121.376
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	76.234
4.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेटिव लि.	646.157
5.	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स (आदित्य बिड़ला नूवो लि. की इकाई)	41.000
6.	कृषिक भारती को-ऑपरेटिव लि.	53.000
7.	मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	180.217
8.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	223.000
9.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	574.000
10.	कृष्णको श्याम फर्टिलाइजर्स लि.	49.000
11.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	359.522

(1)	(2)	(3)
12.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स	123.000
13.	टाटा कैमिलल्स लि.	126.453
14.	जुआरी इंडस्ट्रीज लि.	202.730
15.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि.	45.088
16.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि.	7.621
17.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि.	60.858
18.	हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि. (यूनिट : बिड़ला कॉपर)	10.259
19.	इंडियन पोटाश लि.	314.806
20.	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लि.	34.850
21.	पारादीप फास्फेट्स लि.	66.468
22.	सर्देन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.	5.504
23.	टीएफसीएल	0.277
जोड़ :		3610.000

अनुबंध-II

स्थान :
तिथि

क्षेत्रीय निदेशक

लोक ऋण कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुम्बई-400001

विषय : '7.95 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों' के भारत सरकार विशेष बांड, 2026।

महोदय,

भारत सरकार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना एफ, संख्या 4(8)डब्ल्यूएण्डएम/2007 दिनांक 18 फरवरी, 2008 की शर्तों के अंतर्गत हम करोड़ रुपए की समग्र राशि के शीर्षकांकित बांडों में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष बांडों को शासित करने वाली शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में बांडों को जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय मुहर/स्टाम्प

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2008

**Issue of "7.95 per cent Fertilizer Companies'
Government of India Special Bonds, 2026".**

F. No. 4(8)-W&M/2007.— Government of India hereby notifies the issue of "7.95 per cent Fertilizer Companies' Government of India Special Bonds, 2026", (hereinafter briefly described as "Special Bonds") for an aggregate amount of Rs. 3,610 crore (nominal) on February 18, 2008.

1. Eligibility for making subscription to the Special Bonds and limits of subscription.—The companies as referred to in the Annex I hereto shall be eligible to subscribe to the Special Bonds and their subscription to the Special Bonds shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the said Annex I. No other person including any bank, company, corporation or any other body, except the companies as referred to in the aforesaid Annex, shall be eligible to subscribe to the Special Bonds.

2. Price.—The Special Bonds shall be issued at par for the amounts as per the application made by the eligible companies. The Special Bonds will be issued for a minimum amount of Rs. 10,000 (Nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

3. Application.—The Special Bonds shall be issued on application as per proforma in Annex II, from the eligible companies.

4. Form of Security.—The Special Bonds will be issued in the form of stock, i.e. 'Stock Certificates' or by credit to Constituent Subsidiary General Ledger Account maintained with Subsidiary General Ledger Account holder.

5. Commencement of tenure and date of repayment.—The tenure of Special Bonds will commence from February 18, 2008. Interest on the Special Bonds will accrue from the date of commencement of tenure. The Special Bonds will be repaid at par on February 18, 2026 at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

6. Interest.—The Special Bonds will bear interest at the rate of 7.95 per cent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Special Bonds and will be payable half yearly on August 18 and February 18 till maturity of the Special Bonds.

Interest on the Special Bonds will be payable at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Fort, Mumbai. Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee.

7. Transferability.—

- (i) Subject to the provisions of paragraph 4 of the notification, the Special Bonds can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred by the holder in accordance with the

provisions of the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

- (ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Bonds by the subscribers in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

8. Statutory Provisions.—With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Bonds shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

9. Applicability of Tax Law.—The value of the investment in the Special Bonds and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

10. Eligibility of Bonds.—The investment in the Special Bonds by the banks will not be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks and insurance companies for their statutory requirements. However, such investment by the insurance companies will be eligible to be reckoned as investment under "other Approved Securities" category as defined under Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000. Further, the investment by the Provident Funds, Gratuity Funds, Superannuation Funds, etc. in the Special Bonds will be treated as an eligible investment under the administrative order of the Ministry of Finance.

11. Eligibility for Repo.—The Special Bonds will be transferable and eligible for market ready forward transactions (Repo). The bonds, however, will not be an eligible underlying security for ready forward transactions (Repo/ reverse Repo) with the Reserve Bank of India.

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.

ANNEX-I

List of eligible Companies and allocation of "7.95 per cent Fertilizer Companies' Government of India Special Bonds, 2026".

Sl. No.	Name of the Company	Amount (Rs. in crore)
1	2	3
1.	Chambal Fertilizers and Chemicals Limited	288.580
2.	Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited	121.376
3.	Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited	76.234
4.	Indian Farmers Fertilizer Co-operative Limited	646.157

1	2	3
5.	Indo Gulf Fertilizers (A Unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.)	41.000
6.	Krishak Bharti Co-operative Limited	53.000
7.	Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited	180.217
8.	Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited	223.000
9.	National Fertilizers Limited	574.000
10.	Kribhco Shyam Fertilizers Limited	49.000
11.	Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited	359.522
12.	Shriram Fertilisers and Chemicals	123.000
13.	TATA Chemicals Limited	126.453
14.	Zuari Industries Limited	202.730
15.	Coromandel Fertilizers Limited	45.088
16.	Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Limited	7.621
17.	Godavari Fertilisers and Chemicals Limited	60.858
18.	HINDALCO Industries Limited (Unit: Birla Copper)	10.259
19.	Indian Potash Limited	314.806
20.	Mosaic India Private Limited	34.850
21.	Paradeep Phosphates Limited	66.468
22.	Southern Petrochemical Industries Corporation Limited	5.504
23.	TFCL	0.277
Total		3610.000

ANNEX II

Place :

Date :

The Regional Director,
Public Debt Office,
Reserve Bank of India,
Shaheed Bhagat Singh Road,
Mumbai-400 001

Subject : "7.95 per cent Fertilizer Companies' Government of India Special Bonds, 2026".

Sir,

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Notification F.No. 4 (8) W & M/2007 dated February 18, 2008, we are eligible to subscribe to the captioned Bonds for an aggregate amount of Rs. crore.

We accept the terms and conditions governing the Special Bonds and request you to issue the bonds in our favour.

Yours faithfully,

Signature:

Name:

Designation:

Office Seal/Stamp